



THE 10TH SESSION OF TECHNICAL COMMITTEE OF CSAM & REGIONAL WORKSHOP ON ESTABLISHING A REGIONAL DATABASE OF AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AND THE PACIFIC

SIEM REAP, CAMBODIA

17-19 NOVEMBER 2014



Dr. Kanchan K. Singh
Assistant Director General (Engineering)
Indian Council of Agricultural Research
New Delhi, INDIA
Web: www.icar.org.in

Overview of the Statistics System for Agricultural Mechanization in India

a) Responsible agency

- ✓ No agency is responsible for statistics related to agricultural mechanization in India.
- ✓ Efforts are being made under the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi through:
 - Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal
 - Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi

कृषि अनुसंधान
डाटा पुस्तिका
AGRICULTURAL RESEARCH
**DATA
BOOK**
2013



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली -110 114

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI- 110 114




भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली -110 012

INDIAN AGRICULTURAL STATISTICS RESEARCH INSTITUTE
LIBRARY AVENUE, PUSA, NEW DELHI- 110 012

भाग-VI	SECTION-VI	189-218
कृषि अभियांत्रिकी एवं उत्पाद प्रबंधन	AGRICULTURAL ENGINEERING AND PRODUCE MANAGEMENT	
6.1 चुनी हुई संशोधित फार्म यंत्र एवं मशीनरी	Improved selected farm Implements and machines	191-200
6.2 भारत में फार्म मशीनरी उद्योगों की स्थिति	Status of farm machinery industries in India	201
6.3 भारत में कृषि अभियांत्रिकी की स्थिति	Agricultural engineering inputs status in India	201
6.4 भारत में ट्रैक्टरों का उत्पादन एवं बिक्री	Production and sale of tractors in India	202
6.5 भारत में अश्व शक्तिवार ट्रैक्टरों का उत्पादन	Horse power-wise tractor production in India	203
6.6 राज्यवार ट्रैक्टरों की वार्षिक बिक्री	State-wise annual sale of tractors	204-205
6.7 भारत में शक्ति स्रोतों की संख्या एवं उनकी शक्ति की उपलब्धता	Population of power sources and their power availability in India	206
6.8 विभिन्न श्रेणी के ट्रैक्टरों का उत्पादन एवं बिक्री करने वाली कंपनियों की संख्या	Number of tractor manufacturing companies, production and sale of different category of tractors	207
6.9 सिंचाई पम्पों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति	Trend in growth of number of irrigation pumps	207
6.10 भारत में पम्प सेटों का शक्तिकरण एवं वृद्धि की प्रवृत्ति	Trend in growth of number of pump sets energized in India	207

6.11	विभिन्न फसलों में परम्परागत एवं द्विप सिंचाई पद्धतियों में जल उपयोग की तुलना	Comparison of water use in traditional and drip irrigation systems for different crops	208
6.12	चयनित खाद्य जिनसे के पोषक तत्व एवं पोषण जल की उत्पादकता	Nutrient content and nutritional water productivity of selected food commodities	208
6.13	भारत में खाद्य संसाधन मशीनरी की अनुमानित संख्या	Estimated number of food processing machinery in India	209
6.14	पंजीकृत प्रसंस्करण इकाइयों की सेक्टर-वार संख्या	Sector-wise number of registered processing units	210
6.15	एक्सपेलर द्वारा 100 कि.ग्र. तिलहनो से विशिष्ट तैलीय तत्व एवं तेल का निष्कासन	Typical oil content and extraction of oil from 100 kg of oilseeds by expeller	210
6.16	भारत में सेक्टरवार ठण्डे भंडारण का वितरण (31.12.2009 तक)	Sector-wise distribution of cold storages in India (As on 31.12.2009)	211-212
6.17	भारत में राज्यवार लाख का संसाधन	State-wise processing of lac in India	213
6.18	भारत में कृषि के लिए उपलब्ध कुल शक्ति में विभिन्न शक्ति स्रोतों के योगदान का प्रतिशत	Percentage contribution of different power sources to total power availability for agriculture in India	213
6.19	कुछ मुख्य फसलों में ऊर्जा प्रयोग एवं ऊर्जा उत्पादकता	Energy use and energy productivity of some major crops	213
6.20	भारत में ऊर्जा के नवीकृत स्रोतों से उपलब्ध पावर	Power from renewable sources of energy in India	214
6.21	भारत में राज्यवार बंदखिड़ / विकेन्द्रीय नवीकृत ऊर्जा प्रणाली/साधन (30.11.2008 तक)	State-wise off-grid/decentralized renewable energy system/devices in India (as on 30.11.2008)	215-216
6.22(a)	भारतीय कृषि में श्रेणीवार दुर्घटनाओं का वितरण	Category-wise distribution of accidents in Indian agriculture	217
6.22(b)	स्रोतवार फार्म मशीनरी दुर्घटनाओं का वितरण	Source-wise distribution of farm machinery accidents	217
6.23	भारत में कृषि कर्मों के चुने हुए मानवमिति एवं शक्ति आंकड़े	Selected anthropometric and strength data of Indian agricultural workers	218

ANTHROPOMETRIC AND STRENGTH DATA OF INDIAN AGRICULTURAL WORKERS FOR FARM EQUIPMENT DESIGN



Coordinating Cell
All India Coordinated Research Project on
Ergonomics and Safety in Agriculture
Central Institute of Agricultural Engineering
Bhopal, India



AGRICULTURAL ENGINEERING DATA BOOK

DFA

2014



Central Institute of Agricultural Engineering
(Indian Council of Agricultural Research)
Nabibagh, Berasia Road, Bhopal - 462 038 M.P. INDIA

b) Channels, ways and frequency to collect, report and disseminate the agricultural mechanization statistics

- ✓ The information on data related to tractors and power tillers in India are compiled periodically by Tractor Manufacturers Association and Power Tiller Manufacturer Association.
- ✓ There is no systematic data collection system for use of farm machinery in Indian agriculture.

c) Quantity and quality of agricultural mechanization statistics

- ✓ The quantity and quality of collected data about tractor and power tillers is reliable.
- ✓ The information about region specific agricultural mechanization is collected by State Agricultural Universities and data are not regularly collected and monitored.

d) Does agricultural census cover component of agricultural mechanization?

- ✓ No

Gaps and Needs

a) What are the challenges and constraints for the statistics collection and management?

- ✓ Large number of farm tools, equipment and machinery are produced in unorganized sector.

b) What are the minimum data and statistics requirements of agricultural mechanization in your country?

- ✓ There is no minimum statistics requirement of agricultural mechanization in India except for tractors and power tillers.
- ✓ For other machinery, it varies from case to case basis.

Solutions and Suggestions

(Both State and Regional Perspective)

a) How to improve the current statistics collection and management?

✓ The statistics collection and management related to agricultural mechanization in India should form part of Agricultural Census and information should be collected by trained manpower periodically.

b) Needs and feasibility of establishing a regional database of agricultural mechanization in Asia and the Pacific

- ✓ The database of mechanization will be the yardstick for researchers and policy makers in the region for formulating long term agricultural mechanization policy.
- ✓ The strategic location of India favors the need for establishment of regional database of agricultural mechanization in Asia and the Pacific which will be instrumental in strengthening quality database in neighboring countries of this region.

c) How you could contribute to the proposed regional database of agricultural mechanization?

- ✓ India may coordinate among member countries in lead role for quality data collection and compilation of data base following uniform format.

THANK YOU ALL

